



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 चैत्र 1935 (श०)
(सं० पटना 306) पटना, सोमवार, 15 अप्रील 2013

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

9 अप्रील 2013

सं० नि० प्रा०/नि० 1-05/2012 खंड-476—प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-251 दिनांक 01.03.2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अन्य सहित खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड अन्तर्गत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, चकहुसैनी का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था, किन्तु अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हो सका। अतएव उक्त अधिसूचना के क्रम में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, चकहुसैनी का निर्वाचन कार्यक्रम निम्न प्रकार नियत किया जाता है :-

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	15.04.2013 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	30.04.2013 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	02.05.2013 (बृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी	03.05.2013 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	10.05.2013 (शुक्रवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	10.05.2013 (अपराह्न 3-4 बजे से)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, चकहुसैनी के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 15.04.2013 (सोमवार) को संलग्न प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-1) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् प्रत्येक दुग्ध उत्पादक समिति में कितने पदों के लिए निर्वाचन कराने की आवश्यकता हो रही है, इसका विस्तृत विवरण संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा तैयार कर प्राधिकार को 06.05.2013 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक होगा। मतगणना दिनांक 10.05.2013 (शुक्रवार) को मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3-4 बजे से शुरू की जायेगी।

आदेश से,

एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति निर्वाचन

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंड.....के प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, निबंधन संख्या....., पताके अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
अध्यक्ष	01 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	12
• एस.सी./एस.टी कोटि	02 पद (आरक्षित)
• महिला कोटि	02 पद (आरक्षित)
• पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• अति पिछड़ा वर्ग कोटि	01 पद (आरक्षित)
• सामान्य कोटि	06 पद (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(स्थान का नाम)

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी।

(स्थान का नाम)

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांकको अपराह्न 3 बजे के पूर्व तकपर

(स्थान का नाम)

दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 07 बजे पूर्वाह्न से 02 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पुरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 306-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>